



SHIVKAMAL IMPEX LIMITED

Regd. Office: Ground Floor, Block-P-7, Green Park (Extn.) New Delhi-110016
Tel: 011-26192964, e-mail: siv_kamal@yahoo.com, info@shivkamalimpex.com
CIN: L52110DL1985PLC019893, Website-www.shivkamalimpex.com

Ref. No.: SKIL/2022-23/345

To,
Listing Operations
BSE Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai- 400001

Date: September 02, 2022

Scrip Code: 539683

Dear Sir / Madam,

Subject- Newspaper Advertisement of Notice of 37th Annual General Meeting, Book closure and E-voting information.

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, please find attached herewith copy of Newspaper Advertisement of Notice of 37th Annual General Meeting, Book closure and E-voting information, published in Financial Express (English edition) and Jansatta (Hindi edition) on September 02, 2022.

Kindly take this information in your record.

Yours faithfully,
For **Shivkamal Impex Limited**

Manu Jain
Director

Encl: As above

PREMIER POLYFILM LTD.

Registered Office : 305, Elite House, 36, Community Centre, Kailash Colony Extension, Zamroodpur, New Delhi 110048
Telephone :011-29246481, 011-29246482, www.premierpoly.com
CIN : L25209DL1992PLC049590
E-mail : compliance.officer@premierpoly.com

NOTICE OF THE 30TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that :
1. The Thirtieth Annual General Meeting (AGM) of the Members of Premier Polyfilm Ltd. will be held on Monday, 26th September 2022 at 2.00 P.M. IST through Video Conference (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the Ordinary and Special Business as set forth in the Notice of the AGM.

2. In compliance with General Circular number 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 21/2021 and 2/2022 dated 08th April 2020, 13th April 2020, 05th May 2020, 13th January, 2021, 14th December 2021 and 05th May 2022 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular number SEBI/HO/CFD/CMD/ICIR/P/2020/79 dated 12th May 2020, SEBI/HO/CFD/CMD/ICIR/P/2021/11 dated 15th January 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD/ICIR/P/2022/62 dated 15th May 2022 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (hereinafter collectively referred to as "Circulars"), the companies are allowed to hold AGMs through VCO/AVM, without the physical presence of members at a common venue through Video Conference/Other Audio-Visual Means (VC). Hence, the AGM of the Company is being held through VCO/AVM only. The members attending the 30th AGM through VCO/AVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies Act, 2013.

3. In compliance with the Circulars, soft/electronic copies of Full Annual Report of the Company for the Financial Year 2021-2022 have been mailed to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories. These documents are also available on the website of the Company and can be downloaded from the website link: <https://www.premierpoly.com/pdf/Annual-Report-2021-22.pdf>, website of stock exchanges i.e. BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com. The dispatch of Notice of the AGM through emails has been completed.

4. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of The Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and as per MCA General Circular No. 14/2020, dated 08th April, 2020, 17/2020, dated 13th April, 2020, 20/2020 dated 05th May, 2020/2021 dated 13th January, 2021 and 02/2022 dated 05th May 2022, the Company is offering "remote e-voting facility" prior to the date of AGM, and "E-voting facility" during the AGM arranged by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to the Members in respect of all businesses to be transacted at the AGM. The detailed instructions for the remote e-voting process and e-voting during the AGM are given on page number 12 to 16 of the Notice of AGM.

5. The remote e-voting period commences on Friday, September 23, 2022 at 9.00 A.M. and ends on Sunday, September 25, 2022 at 5.00 P.M. During this period, members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 19th September 10, 2022, may cast their vote by remote e-voting on the business specified in the Notice of the AGM. Any person, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of the soft copy of Notice and Annual Report after the cut-off date of dispatch i.e. August 26, 2022 may follow the same procedure for remote e-voting as given on page number 12 to 16 of the Notice of AGM. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the members, the member shall not be allowed to change it subsequently.

6. Members who are participating in the meeting through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) on September 26, 2022 can cast their vote during the meeting electronically on the business specified in the notice of the AGM through electronic voting system (E-Voting) of CDSL. However, only those Members/ share holders, who will be present in the AGM through VCO/AVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through Remote E-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through E Voting system in the AGM.

7. For queries or issues regarding E-Voting you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-26085738 and 022-26085243.
8. Dividend and Book Closure: The Shareholders are requested to note that the Board of Directors of the Company at their Meeting held on 09th May 2022 has recommended a dividend of Rs.05 paise per equity shares i.e. 10% subject to the approval of the Members. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rules thereunder and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members & Share Transfer Books of the company will remain closed from Tuesday, the 20th day of September 2022 to Monday, the 26th day of September 2022 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and to determine eligible Shareholders for the payment of Dividend, if declared at the AGM.

9. Pursuant to Finance Act, 2020, dividend income will be taxable in the hands of shareholders w.e.f. April 1, 2020 and the Company is required to deduct tax at source from dividend paid to shareholders at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, the shareholders are requested to refer to the Finance Act, 2020 and amendments thereof. The shareholders are requested to update their PAN with Share Transfer Agents, M/s Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd. (in case of shares held in physical mode) and with depositories (in case of shares held in demat mode). A Resident individual shareholder with PAN who is not liable to pay income tax can submit an annual declaration in Form No. 15G/15H, to avail the benefit of non-deduction of tax at source by email to beetalra@gmail.com on or before the end of the business hours of 19th September, 2022. Shareholders are requested to note that in case their PAN is not registered, the tax will be deducted at a higher rate of 20%.

BY ORDER OF THE BOARD
FOR PREMIER POLYFILM LTD.

Sd/-
COMPANY SECRETARY

Place: New Delhi
Date: 31.08.2022

RATHI INDUSTRIES LIMITED

Regd. Off : A-24/6, Mohan Co-operative Indl. Estate, Mathura Road New Delhi - 110044
CIN:- L74899DL1991PLC046570

Notice of 30th AGM

Notice is hereby given that the Thirtieth (30th) Annual General Meeting ("AGM") of Rathi Industries Limited ("the Company") will be held on Friday, September 30, 2022 at 3.00 P.M.(IST) to transact the business as set out in the Notice of AGM which will be circulated for convening the AGM.

Register of Members of the Company will remain closed from Thursday, September 22, 2022 to Friday, September 30, 2022 (both days inclusive) for the purpose of ensuing AGM.

The notice of the AGM along with Annual Report 2021-22 will be sent only through electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company/Depositories. Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report 2021-22 will also be available on the Company's website www.rathistelmex.com, and website of the Stock Exchange i.e. MSE Limited www.mseil.in.

For further details on update of email address, bank details and mobile number or any other information, you may refer the Notice of the AGM which shall be available on the Company's website www.rathistelmex.com and website of the Stock Exchange www.mseil.in.

By order of the Board of Directors of
Rathi Industries Limited

Sd/-
(Mukesh Bhardwaj)
Whole Time Director
Date: 01.09.2022
Place: Chhapraula
DIN: 01257936

कजारिया सिरामिक्स लिमिटेड

[CIN: L26924HR1985PLC056150]
पंजीकृत कार्यालय : एएसएफ-11, दूसरा बंद, जेएमएच रोज़ेंट प्लाजा, महारौली गुडगांव रोड, गांव सिकंदरपुर घोसी, गुडगांव, हरियाणा - 122001, फोन : +91-124-4081281
कारपोरेट कार्यालय : 0-1/बी-1 (एक्सटेंडिड), मोहन को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली - 110044 | फोन : +91-11-26946409 | फैक्स : +91-11-26946407
वेबसाइट : www.kajariaceramics.com | ई-मेल : investors@kajariaceramics.com

36वीं वार्षिक आम बैठक,**बही बंदी और ई-वोटिंग सूचना का नोटिस**

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 36वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का आयोजन शुक्रवार, 23 सितंबर, 2022 को दोपहर 3.00 बजे (भारतीय मानक समय) नोटिस में दिए गए कार्यों हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) /अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओवीएम) के माध्यम से किया जाएगा।

कोविड-19 महामारी के बढ़ते पैमाने पर फैलने के कारण और असाधारण परिस्थितियों के मद्देनजर, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने अपने सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020, सामान्य परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, सामान्य परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 05 मई 2020, सामान्य परिपत्र 02/2021 दिनांक 13 जनवरी 2021, सामान्य परिपत्र सं 19/2021 दिनांक 8 दिसंबर 2021, सामान्य परिपत्र सं 21/2021 दिनांक, 14 दिसंबर 2021 और सामान्य परिपत्र सं 02/22 दिनांक 5 मई, 2022 और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने अपनी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/1/ सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 और परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 (संबंधित परिपत्रों के रूप में संदर्भित) ने केंद्रबद्ध वर्ष 2022 के दौरान एक आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओवीएम के माध्यम से कंपनी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम या बैठक) आयोजित करने की अनुमति दी है।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (नियम) के नियम 20 और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (बायलाइन) का सूचीकरण और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सूचीकरण विनियम) के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी द्वारा अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सुविधा दी जा रही है ताकि वे एजीएम में अपने वोट (क) एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा या (ख) एजीएम के दौरान ई-वोटिंग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विधि से दें। तदनुसार एजीएम की सूचना में दिए गए व्याख्य के तहत का लेन देन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधाओं के माध्यम से किया जा सकता है, जो मेगनल सिक्योरिटीज डिजाइनिंग लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड-ए विंग, कमला मिश्र कॉम्प्लेक्स, लोहार रोड, मुंबई-400013 (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की जाती है।

संघट परिपत्रों में, कंपनी में, कंपनी के सभी सदस्यों को एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट के साथ, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षा और निदेशकों की रिपोर्ट ई-मेल द्वारा बुलाई, 31 अप्रैल, 2022 को उन सदस्यों को भेज दी गई है, जिन्हें ई-मेल पते कंपनी/डिजिटल/सीआईआर/पी/2021/11 प्रदान किया गया है। प्रकृत दस्तावेजों कंपनी की वेबसाइट www.kajariaceramics.com पर और क्रमशः लिंक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध हैं, और एनएसडीएल की वेबसाइट www.nsdl.co.in पर भी उपलब्ध हैं।

सदस्यों को आगे सूचित किया जाता है कि (क) रिमोट ई-वोटिंग मंत्रालय 20 सितंबर, 2022 को सुबह 9.00 बजे (भारतीय मानक समय) शुरू होगी और राफ़रक, 22 सितंबर, 2022 को शाम 5.00 बजे (भारतीय मानक समय) समाप्त होगी, (ख) रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति ग्यारह, 22 सितंबर, 2022 को शाम 5.00 बजे (भारतीय मानक समय) के बाद नहीं दी जाएगी (ग) उपरोक्त एजीएम और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी और उपरोक्त नोटिस के समाप्त होने के बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय बनाया जाएगा, (घ) वोटिंग का अधिकार (रिमोट ई-वोटिंग व ई-वोटिंग द्वारा एजीएम में वोट डालने के लिए) वोटों की अनूतर अथवा शुक्रवार, 16 सितंबर, 2022 को कंपनी के सदस्यों के नाम में पंजीकृत शेयरों के रजिस्ट्रार के पास भेजा जाएगा, (ङ) कोई भी व्यक्ति जिसका पास कंपनी के शेयर हैं और वह एजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 16 सितंबर, 2022 को उसके पास इलेक्ट्रॉनिक ई वोटिंग/डिजिटल/सीआईआर/पी/2021/11 या admin@cmeregistrars.com पर (नाम, फोनियो संख्या / डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी सहित जैसा भी मामला हो) अनुरोध भेजकर अपना वूचर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। जबकि, यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत है तो मौजूदा प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड को वोट डालने के लिए उपयोग किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपना पासवर्ड भूल गया है तो वह www.evotingindia.com पर उपलब्ध विकल्प "Forgot User Details/Password" का उपयोग कर पासवर्ड रिमोट द्वारा सकता है या वोट डालने की 1800 1020 990/1800 22 44 30 पर एनएसडीएल से संपर्क कर सकता है। (च) एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा की उपलब्धता है और वीसी/ओवीएम के जरिए एजीएम में आने वाले सदस्यों, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं दिया है, और अन्यथा जिन्हें इसके लिए प्रतिक्रिया नहीं किया गया है वे एजीएम में ई वोटिंग के जरिए अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। (छ) एक सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट देने के बाद एजीएम में हिस्सा ले सकता है, किंतु उस एजीएम में दोबारा वोट देने का अधिकार नहीं होगा। (ज) जिस व्यक्ति का नाम कट ऑफ तिथि पर सदस्यों के रजिस्ट्रार में दिया गया है या डिजिटल/सीआईआर/पी/2021/11 द्वारा रखे गए लामार्थी स्वामी का रजिस्ट्रार में दिया गया है केवल उन्हें रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग द्वारा एजीएम में वोट देना का अधिकार होगा। व्यक्ति जो कट ऑफ तिथि के अनुराध सदस्य नहीं है, उसे इस वोट देने का अधिकार नहीं है। (झ) उद्देश्य के लिए ही लिया जाना चाहिए, (ञ) वीसी/ओवीएम के जरिए एजीएम में हिस्सा लेने या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया एजीएम की सूचना उपलब्ध है। (ञ) उन सदस्यों के ई-मेल पता के पंजीकरण कराने की विधि, जिन्हें ई-मेल पते कंपनी/राजिस्ट्रार और वीसी/ओवीएम एस्टेट (आरटीए)/डिजिटल/सीआईआर/पी/2021/11 या investors@kajariaceramics.com पर उपलब्ध है।

ई-वोटिंग के बारे में जानकारी के लिए सदस्य एजीएम की सूचना में अनुदेशों को देख सकते हैं। यदि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बारे में कोई प्रश्न/आशंका है तो सदस्य अपने लिए तैयार किए गए बख पूछे जाने वाले प्रश्नों (फ़ैक्स्यूरी) और रिमोट ई-वोटिंग प्रयोक्ता नोटिस से देख सकते हैं जो आगामी 20 अगुम www.evotingindia.com में शेयर धारकों को लिए उपलब्ध है या सूत्री पत्रकी मद्देन, प्रबंधक, एनएसडीएल ट्रेड वर्ल्ड ए विंग, चौथा और पांचवां तल, कमला मिश्र कॉम्प्लेक्स, लोहार रोड, मुंबई-400013 से ई-मेल आई डी evoting@nsdl.co.in या टोल फ्री नंबर 1800 1020 990/1800 22 44 30 पर संपर्क कर सकते हैं।

कंपनी की सूचना में दिए गए संक्षेपों के परिधानों की घोषणा एजीएम के समापन के अनुरोध समय के अंदर की जाएगी। घोषित परिधानों के साथ संबंधित की रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.kajariaceramics.com पर और एनएसडीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध या इसके लिए उन्मके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा तालका दलाई जाएगी और परिधान स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की भी बताए जाएंगे। घोषित किए गए परिधान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय एएसएफ-11, दूसरा बंद, जेएमएच रोज़ेंट प्लाजा, महारौली गुडगांव रोड, गांव सिकंदरपुर घोसी, गुडगांव, हरियाणा 122001 और कारपोरेट कार्यालय 0-1/बी-1 (एक्स), मोहन को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110044 में भी प्रदर्शित किए जाएंगे।

आगे पुनः सूचना दी जाती है कि अधिनियम की धारा 91 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, के नियम 10 और सूचीकरण विनियमों के विनियम 42 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्ट्रार और कंपनी के शेयर अंतरण प्रतिक्रिया शनिवार, 17 सितंबर, 2022 से शुक्रवार, 23 सितंबर, 2022 (दोनों दिन शामिल) के बीच एजीएम के आयोजन हेतु बंद रखी जाएगी।

निदेशक मंडल की सिफारिश के अनुसार, यदि एजीएम में लामार्थी घोषित किया जाता है तो इविकट डी शेयरों में अंतर्गत लामार्थी का मूल्यांकन, 19. प्रत्येक के इविकट डी शेयर के लिए 3 रु. की दर पर शनिवार, 22 अक्टूबर, 2022 को उनसे पहले उन सदस्यों को किया जाएगा जिनके नाम इस प्रकार हैं:

(क) इलेक्ट्रॉनिक रूप में घोषित शेयरों के संबंध में, शुक्रवार, 16 सितंबर, 2022 को व्यावसायिक कार्य समय के अंत में मेगनल सिक्योरिटीज डिजाइनिंग लिमिटेड और स्टैंडल डिजिटल/सीआईआर/पी/2021/11 प्रदान किया गया प्रस्तुत किए जाने वाले लामार्थी मालिकों की सूची में लामार्थी स्वामी, तथा

(ख) शुक्रवार, 16 सितंबर, 2022 को या उससे पहले कंपनी के साथ दर्ज भौतिक रूप में वेंडु शेयर हस्तांतरण को प्रमादी करने के बाद कंपनी के सदस्यों के रजिस्ट्रार में मौजूद सदस्य।

कजारिया सिरामिक्स लिमिटेड के लिए

हस्ता./-
राम चंद्र रावत
स्थान: नई दिल्ली
तिथि : 1 सितंबर 2022

SHIVKAMAL IMPEX LIMITED

Regd. Office: Ground Floor, Block-P-7, Green Park (Extn.) New Delhi-110016
CIN: L21160DL1985PLC019893
Tel: 011-26192964, e-mail: info@shivkamalimpex.com, shiv_kamal@yahoo.com
Website: www.shivkamalimpex.com

NOTICE OF 37th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Shivkamal Impex Limited ("the Company") will be held on Monday, September 26, 2022 at 10.30 A.M. at the Registered Office of the Company at Ground Floor, Block P-7, Green Park (Extn.), New Delhi- 110016 to transact the business as set out in the Notice convening the AGM.

Notice of AGM along with the Annual Report 2021-22 has been sent to all the Members of the Company, whose name appeared on the Register of Members or the register of beneficial owners maintained by the depositories as on Friday, August 26, 2022, through electronic mode to the Members whose email IDs are registered with the Company or the Depository Participant(s) and physical copies to all other members in the permitted mode. The dispatch of Notice of 37th AGM and Annual Report has been completed on September 01, 2022. The same will also be available on the Company's website at www.shivkamalimpex.com and NSDL e-voting website at www.evoting.nsdl.com

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Tuesday, September 20, 2022 to Monday, September 26, 2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rules 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the Company is providing electronic voting facility for transacting the business as set out in the Notice of the AGM, through National Securities Depository Limited (NSDL), which will commence on Friday, September 23, 2022 at 09.00 A.M. and ends on Sunday, September 25, 2022 at 05.00 P.M. and remote e-voting shall not be allowed thereafter. Attention is also invited to Notes to the 37th AGM Notice, giving instruction on how the business of the Meeting is to be transacted through electronic voting system. Any person, who acquires shares of the Company and become Member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as on the cut-off date i.e. September 19, 2022 may obtain Login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or RTA at beetalra@gmail.com.

The ballot or polling paper shall be made available at the meeting and Members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting. A member may participate in the general meeting even after the exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.

A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on cut off date i.e. September 19, 2022 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the General Meeting.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to Ms. Soni Singh, Asst. Manager, National Securities Depository Limited at the email id - evoting@nsdl.co.in

For Shivkamal Impex Limited
Sd/-
Manu Jain
Director
Date: 01-09-2022
Place: New Delhi

बिट्स लिमिटेड

[CIN: L72200DL1984PLC241971]
पंजी. कार्या: 711, यू.टी. न्यू टेली इन्फो, 27, बाख्ताबग रोड, नई दिल्ली-110001
ईमेल: bitsltd@gmail.com, वेबसाइट: <http://www.bits.net.in>
फ़ोन: 011-43656567

30वीं वार्षिक साधारण सभा, पुस्तक बंदी और वोटिंग जानकारी

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बिट्स लिमिटेड के सदस्यों को 30वीं वार्षिक साधारण सभा ("एजीएम") रविवार, 25 सितंबर, 2022 को 5.00 बजे अप. में डिजिटल कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओवीएम") द्वारा आयोजित की जाएगी। वार्षिक रिपोर्ट की सूचना में डिजिटल साधारण सभा तिथि का उल्लेख किया जाएगा तथा वीसी/ओवीएम के माध्यम से वोट डालने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओवीएम) के माध्यम से किया जाएगा।

कोविड-19 महामारी के बढ़ते पैमाने पर फैलने के कारण और असाधारण परिस्थितियों के मद्देनजर, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने अपने सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020, सामान्य परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, सामान्य परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 05 मई 2020, सामान्य परिपत्र 02/2021 दिनांक 13 जनवरी 2021, सामान्य परिपत्र सं 19/2021 दिनांक 8 दिसंबर 2021, सामान्य परिपत्र सं 21/2021 दिनांक, 14 दिसंबर 2021 और सामान्य परिपत्र सं 02/22 दिनांक 5 मई, 2022 और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने अपनी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/1/ सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 और परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 (संबंधित परिपत्रों के रूप में संदर्भित) ने केंद्रबद्ध वर्ष 2022 के दौरान एक आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओवीएम के माध्यम से कंपनी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम या बैठक) आयोजित करने की अनुमति दी है।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (नियम) के नियम 20 और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (बायलाइन) का सूचीकरण और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सूचीकरण विनियम) के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी द्वारा अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सुविधा दी जा रही है ताकि वे एजीएम में अपने वोट (क) एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा या (ख) एजीएम के दौरान ई-वोटिंग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विधि से दें। तदनुसार एजीएम की सूचना में दिए गए व्याख्य के तहत का लेन देन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधाओं के माध्यम से किया जा सकता है, जो मेगनल सिक्योरिटीज डिजाइनिंग लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड-ए विंग, कमला मिश्र कॉम्प्लेक्स, लोहार रोड, मुंबई-400013 (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की जाती है।

संघट परिपत्रों में, कंपनी में, कंपनी के सभी सदस्यों को एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट के साथ, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षा और निदेशकों की रिपोर्ट ई-मेल द्वारा बुलाई, 31 अप्रैल, 2022 को उन सदस्यों को भेज दी गई है, जिन्हें ई-मेल पते कंपनी/डिजिटल/सीआईआर/पी/2021/11 प्रदान किया गया है। प्रकृत दस्तावेजों कंपनी की वेबसाइट www.kajariaceramics.com पर और क्रमशः लिंक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध हैं, और एनएसडीएल की वेबसाइट www.nsdl.co.in पर भी उपलब्ध हैं।

सदस्यों को आगे सूचित किया जाता है कि (क) रिमोट ई-वोटिंग मंत्रालय 20 सितंबर, 2022 को सुबह 9.00 बजे (भारतीय मानक समय) शुरू होगी और राफ़रक, 22 सितंबर, 2022 को शाम 5.00 बजे (भारतीय मानक समय) समाप्त होगी, (ख) रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति ग्यारह, 22 सितंबर, 2022 को शाम 5.00 बजे (भारतीय मानक समय) के बाद नहीं दी जाएगी (ग) उपरोक्त एजीएम और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी और उपरोक्त नोटिस के समाप्त होने के बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय बनाया जाएगा, (घ) वोटिंग का अधिकार (रिमोट ई-वोटिंग व ई-वोटिंग द्वारा एजीएम में वोट डालने के लिए) वोटों की अनूतर अथवा शुक्रवार, 16 सितंबर, 2022 को कंपनी के सदस्यों के नाम में पंजीकृत शेयरों के रजिस्ट्रार के पास भेजा जाएगा, (ङ) कोई भी व्यक्ति जिसका पास कंपनी के शेयर हैं और वह एजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 16 सितंबर, 2022 को उसके पास इलेक्ट्रॉनिक ई वोटिंग/डिजिटल/सीआईआर/पी/2021/11 या admin@cmeregistrars.com पर (नाम, फोनियो संख्या / डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी सहित जैसा भी मामला हो) अनुरोध भेजकर अपना वूचर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। जबकि, यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत है तो मौजूदा प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड को वोट डालने के लिए उपयोग किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपना पासवर्ड भूल गया है तो वह www.evotingindia.com पर उपलब्ध विकल्प "Forgot User Details/Password" का उपयोग कर पासवर्ड रिमोट द्वारा सकता है या वोट डालने की 1800 1020 990/1800 22 44 30 पर एनएसडीएल से संपर्क कर सकता है। (च) एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा की उपलब्धता है और वीसी/ओवीएम के जरिए एजीएम में आने वाले सदस्यों, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं दिया है, और अन्यथा जिन्हें इसके लिए प्रतिक्रिया नहीं किया गया है वे एजीएम में ई वोटिंग के जरिए अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। (छ) एक सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट देने के बाद एजीएम में हिस्सा ले सकता है, किंतु उस एजीएम में दोबारा वोट देने का अधिकार नहीं होगा। (ज) जिस व्यक्ति का नाम कट ऑफ तिथि पर सदस्यों के रजिस्ट्रार में दिया गया है या डिजिटल/सीआईआर/पी/2021/11 द्वारा रखे गए लामार्थी स्वामी का रजिस्ट्रार में दिया गया है केवल उन्हें रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग द्वारा एजीएम में वोट देना का अधिकार होगा। व्यक्ति जो कट ऑफ तिथि के अनुराध सदस्य नहीं है, उसे इस वोट देने का अधिकार नहीं है। (झ) उद्देश्य के लिए ही लिया जाना चाहिए, (ञ) वीसी/ओवीएम के जरिए एजीएम में हिस्सा लेने या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया एजीएम की सूचना उपलब्ध है। (ञ) उन सदस्यों के ई-मेल पता के पंजीकरण कराने

FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Under Regulation 4 of the Insolvency and Bankruptcy Code of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF VIKAS PROPPANT & GRANITE LIMITED

RELEVANT PARTICULARS	Details
1. Name of corporate debtor	Vikas Proppant & Granite Limited
2. Date of incorporation of corporate debtor	31-10-1994
3. Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies, Delhi, India, under the Companies Act, 1956
4. Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	L7100H/1994PLC036433
5. Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Regd. Office: Hsair Road, Swami, Haryana-127046 Address other than R/O: G-237, Udyog Vihar RICO Industrial Area Sri Ganganagar 335002, Rajasthan 26-06-2022 (Copy of the order received by IP on 30-06-2022)
6. Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	26-06-2022 (Copy of the order received by IP on 30-06-2022)
7. Estimated date of closure of insolvency resolution process	22-02-2023
8. Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Name- Naresh Kumar Aggarwal Reg No- IBI/PA-001/IP-P-02116/2020-2021/13274
9. Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	Reg. Add - M-806, Emaar Palm Drive, Golf Course Ext. Road, Sector 66, Near Badshapur Chowk, Gurgaon, Haryana- 122018 Email - nareshaggarwal375@gmail.com
10. Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	M-806, Emaar Palm Drive, Golf Course Ext. Road, Sector 66, Gurgaon, Haryana - 122018 Email - CIRPVPLG1@GMAIL.COM
11. Last date for submission of claims	13-09-2022 (14 days from the receipt of order i.e. 30-06-2022)
12. Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Not Applicable
13. Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	Not Applicable
14. (a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at:	(a) www.ibbi.gov.in www.sunresolution.in www.vikasproppantandgraniteltd.in (b) Not Applicable

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, Chandigarh Bench has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of Vikas Proppant & Granite Limited on 26-06-2022 (Copy of the order received on 30-06-2022).

The creditors of Vikas Proppant & Granite Limited are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 13-09-2022 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post, or by electronic means.

A financial creditor belonging to a class, as listed against entry No. 12, shall indicate its choice of authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No. 13 to act as authorised representative of the class [NA] in Form CA.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Date: 02-09-2022 Place: Gurgaon

Sd/- Naresh Kumar Aggarwal
Reg. No- IBI/PA-001/IP-P-02116/2020-2021/13274

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, DEHRADUN
Government of India, Ministry of Finance, Deptt. of Financial Services
2nd Floor, Tower, Sector, Saharanpur Road, Dehradun, UK-248171

PUBLICATION NOTICE IN O.A. No. 432 OF 2021
(SUMMONS UNDER SUB-SECTION (4) OF SECTION 19 OF THE RECOVERY OF DEBTS AND BANKRUPTCY ACT, 1993, READ WITH SUB-RULE (2A) OF RULE 5 OF THE DEBT RECOVERY TRIBUNAL (PROCEDURE) RULES, 1993 AS AMENDED FROM TIME TO TIME)

Dy No. 925 Date: 24.08.2022

Indian Overseas Bank Vs Mr. Matloob Hussain & Ors.

To,
2. Sh. Munesh Sharma S/o Karan Singh, R/O Pashupati Vihar, Krishan Nagar Colony, Near S.D.M. Court, Tehsil Kashipur, Distt. Udhham Singh, UK.
4. Sh. Umandeep Singh, S/o Sh. Harcharan Singh, R/o Bhehewala, Tehsil Kashipur, Distt. Udhham Singh Nagar, UK.

Whereas the above named applicant Bank has instituted OA No. 432 of 2021 against you for recovery of debts of Rs. 33,22,274.33/- in which Hon'ble Tribunal was pleased to issue Summons/Notice U/s 19(4) of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993 and was listed before the Hon'ble Presiding Officer on 10.08.2022.

Whereas, it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it is not possible to serve you in ordinary way. Therefore, this notice is given by way of this publication directing you to appear in person or through your duly authorized agent or legal practitioner before the Tribunal on 21.09.2022. Further, you are required to show cause as to why the relief(s) prayed for in OA should not be granted and to file reply, if any, in your defence in a paper book form in sets and produce all the documents and affidavits under which your defence or claim for set off, counter claim, in this Tribunal personally or through your duly authorized agent or legal practitioner within 30 days from the date of the publication of this notice.

Take notice that in case of default of your appearance on the specified day and time before the Tribunal, the case shall be heard and decided in your absence.

Given under my hand and seal of this Tribunal on this the 24th day of August, 2022.

By order of Tribunal
Registrar, Debts Recovery Tribunal, Dehradun

BEFORE THE REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION, MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS, B-2 WING, 2ND FLOOR, PARYAVARAN BHAWAN, CGO COMPLEX, NEW DELHI- 110003

In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 and

In the matter of CASTLE BUILDCON PRIVATE LIMITED
(CIN: U45400DL2007PTC163700)

having its registered office at FLAT NO.-7, 3rd FLOOR, PLOT NO.-4 DAYANAND VIHAR, DELHI- 110092,

.....Petitioner

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Regional Director, Northern Region under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extraordinary General meeting held on Wednesday 31-08-2022 to enable the company to change its Registered office from 'NCT of Delhi' to 'State of Uttar Pradesh'.

Any person, whose interest likely to be affected by the proposed change of registered office of the company may deliver either on MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region MCA, B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi- 110003 within 14 days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company with a copy of the applicant company at its email id-gaurav.kumar@gulshanhomz.com.

For and on behalf of the Applicant
Sd/-
Deepak Kapoor
Director
DIN: 00462283

Date: 01.09.2022
Place: New Delhi

VASTU HOUSING FINANCE CORPORATION LTD
Unit 203 & 204, 2nd Floor, "A" Wing, Navhar Estate, Zakaria Bunder Road, Sewri (West), Mumbai 400015, Maharashtra. CIN No.: U65922MH2005PLC227501

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

Whereas, the undersigned being the Authorised Officer of Vastu Housing Finance Corporation Limited under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred to him under section 13 (12) read with Rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 issued a Demand Notice dated 18-Sep-21 calling upon the borrower Mr/Mrs. MOHIT KUMAR (Applicant), Mr/Mrs.SANJAY KUMAR CHORASIA (Co Applicant), Mr/Mrs.SUNITA DEVI (Co Applicant) to repay the amount mentioned in the demand notice bearing account number HL000000036851 being loan of Rs. 1099852/- (Rupees Ten Lacs Ninety Nine Thousand Eight Hundred Fifty Two) as on 31-Aug-21 within 60 days from the date of receipt of the said notices.

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower, guarantor and the public in general that the undersigned has taken Physical possession of the property described herein below in exercise of powers conferred to me under Section 13(4) of the said Act read with Rule 9 of the said rules on this 30-Aug-22.

The borrower and guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Vastu Housing Finance Corporation Limited (GHAZIABAD BRANCH) for an amount of Rs. 1099852/- (Rupees Ten Lacs Ninety Nine Thousand Eight Hundred Fifty Two) and interest thereon, costs etc.

Gul flat no Gf-UZ on ground floor (r.h.s) without roof rights, situated at residential plot no D-15/26 and D-15/27 colony known as DfI ankur vihar Village tehsil Loni District Ghaziabad Uttarpradesh -201102

Date : 02/09/2022 Place : GHAZIABAD

Authorised Officer
Vastu Housing Finance Corporation Ltd

Hero FinCorp. Limited
CIN: U74899DL1991PLC046774
Regd Office: 34, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi-110057
Tel: 011-49487150 Fax: 011-49487150
Email: litigation@herofinccorp.com
Website: www.herofinccorp.com

CORRIGENDUM NOTICE AGAINST ADVERTISEMENT PUBLISHED ON 28.08.2022

"APPENDIX-IV-A" (SEE PROVISIO TO RULE 8(6)) SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY

E-AUCTION SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY IN TERMS OF SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 READ WITH PROVISIO TO RULE 8 OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrowers (s), Guarantor (s) and Mortgagor (s) that the below mentioned immovable property/ Secured assets mortgaged/charged to the Secured Creditor (Hero FinCorp Limited), the Physical possession of the below mentioned Secured assets has been taken by the Authorised Officer of Secured Creditor (Hero FinCorp Limited), the same will be sold on "As is where is Basis" & "As is what is Basis" & "whatever there is Basis" & "Without recourse Basis" on below mentioned date, for recovery of amount as mentioned below, due to the Secured Creditor from the Borrower, i.e.

- M/S Kwaliti Limited (Borrower) through Managing Director, Mr. Sanjay Dingra, R/O KDIL House, F-82, Shivaji Place, Rajouri Garden-110027.
- Mr. Sanjay Dingra (Guarantor) S/O Mr. Jammu Ram Dingra, R/O House No. 14, Road No. 8, East Punjabi Bagh, New Delhi-110026. Also as 5/18, Ramesh Nagar, New Delhi -110015
- M/S JTPL Township Private Limited (Mortgagor) through it's director Mr. Avinash Kumar Srivastava, Registered Office at F-82, District Centre, Shivaji Enclave, Rajouri Garden, New Delhi-110027.

Detailed Description of the Property

- Property comprising under Khevat/Khatoni No. 81/91, bearing Khalsa Nos. 13/118-0, 10/11-12, 10/2-16) kite 3 tadadi 12 karnal 8 marlas its 5/24 share i.e. 02 karnal 12 marlas and comprising under khevat khatoni nos. 82/92 bearing khalsa nos. 21/9/19 (0-2), 10/26(0-9), kite 2 tadai 00 Kanal 11 Marlas its 5/24 share i.e. 00 Kanal 02 Marlas and Khevat/Khatoni No.83/93 bearing Khalsa Nos. 13/11 (8-0), its 5/32 share i.e. 01 Kanal 05 Marlas and Khevat/Khatoni No. 84/94 bearing khalsa No. 14/5(6-12), its 5/24 share i.e. 01 karnal 7.5 Marlas and Khevat/ khatoni No. 84/1, 94/1 Khalsa No. 13/10(33-12), 14/6(15-0), kite 2 tadai 08 Kanal 12 Marlas its 54/688 share i.e. 00 Kanal 13.5 Marlas and Khevat/Khatoni No. 85/95 Khalsa No. 10/21(15-11), 21/2(2-0) kite 2 tadadi 07 Kanal 11 Marlas its 79/906 share i.e. 00 Kanal 13 Marlas. The Total Area is 06 Kanal 13 Marlas
- Property comprising under Khevat/Khatoni No. 105/116 bearing Khalsa No. 13/118-0, 10/11-12, 10/2-16) kite 3 tadadi 12 Kanal 08 Marlas its 22/248 share i.e. 01 Kanal 02 Marlas and Khevat/Khatoni No. 107/118, bearing Khalsa No. 13/11(8-0), its 14/160 share i.e. 0 Kanal 14 Marlas and Khevat/Khatoni No. 108/119 bearing Khalsa Nos. 14/15(23-8), its 6/68 share i.e. 0 Kanal 6 Marlas and the Total Area 02 Kanal 02 Marlas
- Property comprising under Khevat/Khatoni No. 118/130 bearing Khalsa No. 9/6(12-16), 14/2(3-8), 15(6-0), 16(8-0), 17 (11-16), 25(8-4), 10/9(32-12), 10(8-0), 11(17-0), 11(21-0), 20(7-0), 20(2-0) kite 12 Tadai 58 Kanal 16 Marlas Salam and Khevat/Khatoni No. 109/21/20/2 bearing Khalsa No. 10/21(15-11), 21/2(2-0) kite 2 tadadi 07 Kanal 11 Marlas its 72/751 share i.e. 03 Kanal 12 Marlas and Total Area 62 Kanal 08 Marlas
- Property comprising under Khevat/Khatoni No. 81/91 bearing Khalsa No. 13/118-0, 10/11-12, 10/2-16) kite 3 Tadadi 12 Kanal 08 Marlas its 31/248 share i.e. 01 Kanal 11 Marlas and Khevat/Khatoni No. 82/92 bearing khalsa No. 21/9/19(0-2), 10/26(0-9) kite 2 tadadi 0 Kanal 11 Marlas its 9/22 share i.e. 0 Kanal 4.5 Marlas and Khevat/Khatoni No. 83/93 bearing khalsa No. 13/11(8-0) its 28.5/160 share i.e. 01 Kanal 8.5 Marlas and Khevat/Khatoni No. 83/1, 93/1 bearing Khalsa No. 14/15(23-8) its 7/68 share i.e. 0 Kanal 7 Marlas and Khevat/Khatoni No. 84/94 bearing Khalsa No. 14/5(6-12) its 28/132 share 01 Kanal 08 Marlas and Khevat/ Khatoni No. 84/1, 94/1 bearing Khalsa No. 13/10(33-12), 14/6(15-0), kite 2 Tadadi 08 Kanal 12 Marlas its 27 / 172 share 01 Kanal 07 Marlas and Khevat/ Khatoni No. 85/95 bearing Khalsa No. 10/21(15-11) 21/2(2-0) kite 2 Tadadi 07 Kanal 11 Marlas its 15/151 share i.e. 0 Kanal 15 Marlas and Total Area 07 Kanal 01 Marlas
- Properties comprising under Khevat/Khatoni No. 81/91 and bearing Khalsa No 13/118-0, 10/11-12, 10/2-16) kite 3 tadadi 12 Kanal 08 Marlas its 196/168 share 03 Kanal 03 Marlas and Khevat/ Khatoni No 82/92 bearing Khalsa No 10/21(15-11), 21/2(2-0) kite 2 tadadi 07 Kanal 11 Marlas its 17/151 share i.e. 0 Kanal 17 Marlas and the Total Area 04 Kanal, situated at Village Khuni Majra, Tehsil Kharar, HB No 187, dist. SAS Nagar (Mohali)
- Property comprising under Khevat/Khatoni No 156/166, bearing khalsa No 29/18(14-0), 13(2/4-0) kite 2 Tadadi 8 kanal situated at Village Sante Majra, Hadbast No 186, tehsil Kharar, dist. SAS Nagar (Mohali) measuring 7 Kanal 2 Marla 2.

Detail of the encumbrances, outstanding dues of the local self-government, Electricity, Property Tax, Municipal Tax, If any known to Secured Creditor (Hero FinCorp Limited)

Not Known to the Secured Creditor (Hero FinCorp Limited)

Outstanding Dues for recovery of which property is being sold

Rs.21,79,51,392.62/- (Rupees Twenty One Crore Seventy Nine Lakh Fifty One Thousand Three Hundred Ninety Two And Six Paise only) due as on 28.09.2018

Reserve Price

Rs.41,80,00,000/- (Rupees Forty One Crore and Eighty Lakh Only)

EMD Amount

Rs.4,18,00,000/- (Rupees Four Crore Eighteen Lakh Only)

BID Incremental amount

Rs.1,00,000/- (Rupees One Lakh only)

Date/Time of On-Site Inspection of Property with Name of Authorized Officer

06.10.2022 10:00AM to 5:00 PM Authorized Officer - Mr. Johney Verma Mob: 7814005343, johney.verma@herofinccorp.com, and Mr. Parthiv Trivedi Mob: 9820877376 Email: parthiv.trivedi@herofinccorp.com / Mr. Ramesh Giri, Mob: 9634368804, Email: ramesh.giri@herofinccorp.com, Mr. Kamal Wadhwa, Mob No. 9357686860 Email id kamal.wadhwa@herofinccorp.com

Last Date for submission of EMD and Request letter of participation, KYC, Documents, Pan Card, Proof of EMD etc

On or before 07.10.2022 upto 5:00 PM and EMD through RTGS/NEFT

Date & Time of E-Auction

08.10.2022 from 10.00 AM to 1.00 PM (Website: https://sarfaesi.auctiontger.net)

The Intending Purchasers / Bidders are required to deposit EMD amount either through RTGS / NEFT or by way of Demand Draft / Pay order in the Account No. 00030310016156, Name of the Beneficiary: "Hero FinCorp Limited", IFSC Code: HDFC0000003

Terms and Conditions of the E-Auction:

- E-Auction is being held on "As is where is Basis" & "As is what is Basis" & "whatever there is Basis" & "Without recourse Basis" and will be conducted "online".
- The E-Auction will be conducted through M/S E-Procurement Technologies Ltd. (Helpline No(s): 07961200576/544/594/596/531/583/569, 6351896643 and E-mail on Support@auctiontger.net/ mail@shrimali@auctiontger.net) at their web portal https://sarfaesi.auctiontger.net
- There is no encumbrance on the property which is in the knowledge of Secured Creditors. Regarding the intending bidders should make their own independent enquiries regarding the encumbrances, title of property put on auction and claims/ rights/ dues/ affecting the property, prior to submitting their bids. In this regard, the E-Auction advertisement does not constitute and will not be deemed to constitute any commitment or any representation of Hero FinCorp Limited.
- The Authorized Officer / Secured Creditor shall not be responsible in any way for all third party claims/ rights/ dues. The sale shall be subject to rules/ conditions/ prescribed under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002. The other terms and conditions of the E-Auction are published in the following website: https://sarfaesi.auctiontger.net.

Sd/-
Authorized Officer
Hero FinCorp Limited
Date: 02/09/2022

ASIRVAD MICRO FINANCE LTD
CIN U65923TN2007PLC064550
9th and 10th Floor, No. 9, Club House Road, Anna Salai, Chennai 600 002, Tamil Nadu.
Tel:044-42124493

GOLD AUCTION NOTICE

The borrowers, in specific and the public, in general, are hereby notified that public auction of the gold ornaments pledged in the below accounts is proposed to be conducted at the following branches on 16/09/2022 from 10.00 am onwards. The auction is of the gold ornaments of defaulted customers who have failed to make payment of their loan amount despite being notified by registered letters. Unauctioned items shall be auctioned on any other days without any further notice. Change in venue or date if any) will be displayed at the auction centre and on the company website. The details given below are in the order of Branch Name, Loan Number.

List of Pledges:-
PUNJAB, MANSA, BHIKHI GL, 329490700000031,

Persons wishing to participate in the above auction shall comply with the following:-
Interested Bidders should submit Rs. 10,000/- as EMD (refundable to unsuccessful bidders) by way of Cash on the same day of auction. Bidders should carry valid ID card/PAN card. For more details, please contact 8137970458
Authorised officer
Asirvad Micro Finance Ltd.

SHIVKAMAL IMPEX LIMITED
Regd. Office: Ground Floor, Block-P-7, Green Park (Extn.) New Delhi-110016
CIN: L25110DL1985PLC019893
Tel: 011-26192964, e-mail: info@shivkamalimpeex.com; shiv_kamal@yahoo.com
Website: www.shivkamalimpeex.com

NOTICE OF 37th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Shivkamal Impex Limited ("the Company") will be held on Monday, September 26, 2022 at 10.30 A.M. at the Registered Office of the Company at Ground Floor, Block P-7, Green Park (Extn.), New Delhi- 110016 to transact the business as set out in the Notice convening the AGM.

Notice of AGM along with the Annual Report 2021-22 has been sent to all the Members of the Company, whose name appeared on the Register of Members or the register of beneficial owners maintained by the depositories as on Friday, August 26, 2022, through electronic mode to the Members whose email IDs are registered with the Company or the Depository Participant(s) and physical copies to all other members in the permitted mode. The dispatch of Notice of 37th AGM and Annual Report has been completed on September 01, 2022. The same will also be available on the Company's website at www.shivkamalimpeex.com and NSDL e-voting website at www.evoting.nsdl.com.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Tuesday, September 20, 2022 to Monday, September 26, 2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rules 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the Company is providing electronic voting facility for transacting the business as set out in the Notice of the AGM, through National Securities Depository Limited (NSDL), which will commence on Friday, September 23, 2022 at 09.00 A.M. and ends on Sunday, September 25, 2022 at 05.00 P.M. and remote e-voting shall not be allowed thereafter. Attention is also invited to Note to the 37th AGM Notice, giving instruction on how the business of the Meeting is to be transacted through electronic voting system. Any person, who acquires shares of the Company and become Member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as on the cut-off date i.e. September 19, 2022 may obtain Loin ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or to RTA at beataita@gmail.com.

The ballot or polling paper shall be made available at the meeting and Members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting. A member may participate in the general meeting even after the exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.

A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on cut off date i.e. September 19, 2022 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the General Meeting.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for the shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to Ms. Soni Singh, Asst. Manager, National Securities Depository Limited at the email id - evoting@nsdl.co.in.

For Shivkamal Impex Limited
Sd/-
Manu Jain
Director

Date: 01-09-2022
Place: New Delhi

FORM-3 [See Regulation - 15(1)(a)] / 1(63) DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, CHANDIGARH (DRT-2)
1st Floor, SCO 33-34-35, Sector-17A, Chandigarh, (Additional sale allotted on 3rd & 4th Floor also)

CASE NO. OA/3150/2017

Summons under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993 Exh. No. 10162

STATE BANK OF INDIA Vs. HARI OM DISTRIBUTORS AND ORS.

To,

- (1) Hari Om Distributors and Ors., M/s Hari Om Distributors A Partnership Concern, F-83, East of Kailash, New Delhi-65 Through Its Partners. Also at: M/s Hari Om Distributors A Partnership Concern at 65, Vinobha Puri, Lajpat Nagar, New Delhi. New Delhi, delhi Also At M/s Hari Om Distributors A Partnership Concern at LA-252, Near Kotwali Police Station, Opposite LIC Building Faridabad Haryana, Faridabad, Haryana Also at: M/s Hari Om Distributors A Partnership Concern at Vidya Mansion, Sector 20-B, Near Vishnu Palace, Below Neelam Flyover, NIT Faridabad Haryana, Faridabad, Haryana
- (2) Harnam Dass Nagpal Son of Late Shri Devi Dayal Nagpal Partner M/s Hari Om Distributors, Resident of 84, Sector 15-A, Faridabad Haryana
- (3) Karan Nagpal Son of Shri H.D. Nagpal Partner M/s Hari Om Distributors, Resident of 84, Sector 15-A, Faridabad Haryana
- (4) M/s Electra Distributors Private Limited, Registered Office- F-84, East of Kailash, New Delhi - 65, Through its Director Shri H.D. Nagpal, Also at: M/s Electra Distributors Private Limited at Vidya Mansion, Sector 20-B, Near Vishnu Palace, Below Neelam Flyover, NIT, Faridabad Haryana, Faridabad, Haryana

SUMMONS

WHEREAS, OA/3150/2017 was listed before Hon'ble Presiding Officer/Registrar on 20-05-2022.

WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/ notice on the said Application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of Rs. 3,13,10,757/- (application along with copies of documents etc. annexed). In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you, the defendants are directed as under:-

- (i) to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted;
- (ii) to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application;
- (iii) you are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties;
- (iv) you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal;
- (v) you shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets.

You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on 27/10/2022 at 10:30AM, failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date: 20/06/2022
Signature of the officer Authorised to issue summons

Chola
Enter a better life

Cholamandalam investment and Finance Company Limited
Corporate Office: No.2, Dare House, 1st Floor, NSC Bose Road, Chennai - 600 001.
Branch Office: 1st & 2nd Floor, Plot No. 6, Main Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi - 110 005
Contact No: Mr. Sudhir Tomar, Mob.No.9818460101

E-AUCTION SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower / Co-Borrower/ Mortgagor (s) that the below described immovable properties mortgaged to the Secured Creditor, the Symbolic/Physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of Cholamandalam investment and Finance Company Limited the same shall be referred herein as Cholamandalam investment and Finance Company Limited. The Secured Assets will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis through E-Auction.

It is hereby informed to General public that we are going to conduct public E-Auction through website https://chola-lap.procure247.com/

S.N.	Account No. and Name of borrower, co-borrower, Mortgagors	Date & Amount as per Demand Notice U/s 13(2)	Descriptions of the property / Properties	Reserve Price, Earnest Money Deposit & Bid Increment Amount (In Rs.)	E-Auction Date and Time, EMD Submission Last Date Inspection Date
1.	Loan Account Nos. HOE2DE0000005081 & XOHEDS0003397805 & XOHEDS0004442629 1. RAJEEV KUMAR 2. REKHA RANI 3. DHEERAJ S. 4. PARUL PURI 1 to 4 At: B-31 POLICE COLONY POLICE STATION JAGTAPURI KRISHNA NAGAR, NEW DELHI-110051 5. SRD RENEWABLE S.NO 4, HOUSE NO-1, MAIN ROAD KRISHNA KUNJ, LAXMI NAGAR, NEW DELHI-110092	29.11.2021 Rs.44,84,425.97/- (Rupees Forty Four Lakhs Eighty Four Thousand Four Hundred Twenty Five and Paise Ninety Seven Only)	All that piece and parcel of Ground floor and first floor (said portion) part of property bearing 42 area measuring 133 Sq. yds, built on plot no. 48 A, out of rect no. 39 killa No. 14/18 & 14/2 situated at abadi of Sarojini Naidu Park, Shastri, nagar in the area of village khurji khas Ilaqa Shahdara	Rs.42,00,000/- Rs. 4,20,000/- Rs. 25,000/-	05.10.2022 at 11.00 a.m to 1.00 p.m 04.10.2022, 10.am to 5.00p.m As per appointment
2.	Loan Account Nos. XOHEDF00022496168 XOHEDF0002252001 1. SHASHI BHUSHAN At: Q-191 GALLI NO-7 MOHAN GARDEN UTTAM NAGAR, NEWDELHI - 110059 2. BABY RANI At: Q-191 GALLI NO-7 MOHAN GARDEN UTTAM NAGAR, NEWDELHI - 110059 3. M/S RAJ ORIEN INDUSTRIES At: P-209 MOHAN GARDEN BUDD BAZAR ROAD UTTAM NAGAR, NEWDELHI - 110059	10.06.2021 Rs. 3985139.46 /- (Rupees Thirty Nine Lakh Eighty Five Thousand One Hundred Thirty Nine and paise Forty Six Only)	Property bearing No. Q-191, land measuring 100 Sq.yds., Part of Khalsa No. 22/23, situated in the area of Village Razapur Khurd, Colony known as Mohan Garden Extension, in Block - Q, Uttam Nagar, New Delhi.	Rs.36,00,000/- Rs.3,60,000/- Rs. 25,000/-	05.10.2022 at 11.00 a.m to 1.00 p.m 04.10.2022, 10.am to 5.00p.m As per appointment
3.	Loan Account Nos XOHELD00001625672 1. RAKESH NAGPAL 35/15, GROUND FLOOR, EAST PATEL NAGAR DELHI-110065 ALSO AT: RAKESH NAGPAL 4 A/3, OLD RAJENDER NAGAR NEW DELHI-110060 ALSO AT: RAKESH NAGPAL C-1809, SUSHANT LOK PHASE-1, GURGAON HARYANA-122009 2. RISHAB NAGPAL 35/15, GROUND FLOOR, EAST PATEL NAGAR DELHI-110065 ALSO AT RISHAB NAGPAL 4 A/3, OLD RAJENDER NAGAR NEW DELHI-110060 ALSO AT RISHAB NAGPAL C-1809, SUSHANT LOK PHASE-1, GURGAON HARYANA-122009 3. NEERU NAGPAL 35/15, GROUND FLOOR, EAST PATEL NAGAR DELHI-110065 ALSO AT NEERU NAGPAL 4 A/3, OLD RAJENDER NAGAR NEW DELHI-110060 ALSO AT NEERU NAGPAL C-1809, SUSHANT LOK PHASE-1, GURGAON HARYANA-122009	04-02-2022 Rs. 2,01,35,280.90/- (Rupees Two Crore One Lakhs Thirty Five Thousand Two Hundred Eighty and Ninety Paise Only)	BASEMENT AND GROUND FLOOR OF THE PROPERTY BEARING NO 180 SQ.MTRS.(215 SQ.YDS) BLOCK-C IN THE RESIDENTIAL COLONY KNOWN AS SUSHANT LOK, PHASE-1 SITUATED IN AND AROUND VILLAGE SARHAUL, SUKRAHI CHAKKARPUR, SILOKHARA AND KANHALI, TEHSIL AND DISTRICT GURGAON, HARYANA WHICH IS BOUNDED AS UNDER, EAST - C-1810, WEST - C-1808, NORTH - C-1798, SOUTH - ROAD	Rs.1,50,00,000/- Rs. 15,00,000/- Rs. 1,00,000/-	05.10.2022 at 11.00 a.m to 1.00 p.m 04.10.2022, 10.am to 5.00p.m As per appointment
4.	(Loan Account Nos. XOHEDH00001019551) 1. SHALU JAIN At: 2230 GALLI NO-10 KAILASH NAGAR GANDHI NAGAR NEW DELHI-110031 2. AMIT KUMAR JAIN At: 2230 GALLI NO-10 KAILASH NAGAR GANDHI NAGAR NEW DELHI-110031	20/10/2021 Rs.33,85,447.69/- (Rupees Thirty Three Lakhs Eighty Five Thousand Four Hundred Forty Seven and Sixty Nine Paise)	ALL THAT PIECE AND PARCEL OF PROPERTY BEARING NO. 1X/2230 AREA MEASURING 75 SQ.YDS. OUT OF KHARSA NO 8.9.11 TO 16, SITUATED IN GALLI NO. 10 & 11 ABADI KNOWN AS KAILASH NAGAR IN THE AREA OF VILLAGE SEELAMPUR, ILLAQA SHAHDARA, DELHI WHICH IS BOUNDED AS UNDER:- EAST- GALLI NO. 10, WEST- GALLI NO. 11, NORTH-OTHERS PROPERTY, SOUTH- PORTION OF SAID PROPERTY	Rs.94,00,000/- Rs. 9,40,000/- Rs. 50,000/-	05.10.2022 at 11.00 a.m to